



January 19, 2021

Listing Compliance Department National Stock Exchange of India Limited. Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051

Fax: 022-26598235/36

NSE Symbol: VIKASECO

Listing Compliance Department BSE Limited. Phirozee Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 530961

Sub: Publication of Notice of Board Meeting as per Regulation 47 of SEBI (LODR), 2015

Dear Sir/Madam,

In compliance with provisions of Regulation 47 (3) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we hereby enclose copy of the Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi) Edition newspapers both dated January 19, 2021 in which notices for intimation of Board Meeting scheduled on Saturday, January 23, 2021 at 11:30 A.M. to consider and approve the unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended December 31, 2020.

The above information is also available on the Company's website at www.vikasecotech.com.

You are requested to take the information on record and oblige.

Yours Faithfully,

for Vikas Ecotech Limited

Prashant Sajwani

Company Secretary and Compliance Officer

FINANCIAL EXPRESS

Most shareholders of Franklin MF favour closing of 6 schemes

INDU BHAN New Delhi, January 18

"OVERWHELMING **MAJORITY"** of unitholders of the Franklin Templeton MF's six debt schemes that the company proposed to wind up on April 23 has voted in favour of the move, the Supreme Court said, while reading the observers' report.

The SC said more than 97% investors of the six schemes are in favour of the winding up. The e-voting to seek the consent of the unitholders was held on December 26-28. Sebi, on the directions of the SC, had appointed former chief election commissioner TS Krishnamurthy as observer to the process.

While 97.22% unitholders of Franklin India Low Duration Fund voted in favour of winding up, 96.78% unitholders of



Franklin India Ultra Short Bond Fund voted for the same. In case of Franklin India Short Term Income Plan, 97.61% voted for winding up while 97.97% of unitholders of Franklin India Credit Risk Fund voted in favour. In case of Franklin India Dynamic Accrual Fund and Franklin India Income Opportunities Fund, 97.62% and 96.89%, respectively, voted favourably.

The court gave various parties, including Sebi and unitholders, three days to file Mehta, appearing for Sebi, said there was no need to panic for any investor. The impression should not go that there is something seriously wrong and there should not be any distress sale by anyone, he said, while refusing to make public the Franklin's forensic audit report. Five of these six schemes

Solicitor general Tushar

are now cash positive, with the cash available at over ₹9,000 crore as of January 15, fund house's counsel Harish Salve told the Bench.

The SC also refused to enterdrawmoney.Our intention is to favour," the court said.

cial year, a source said.

PFC's ₹5,000-cr bonds issue over-subscribed

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, January 18

POWER FINANCE CORPO-RATION'S ₹5,000 crore taxable non-convertible debentures (NCDs) issue was subscribed close to nine times on Monday and closed for subscription 11 days ahead of the schedule, according to the BSE data. PFC has planned to raise

₹10,000 crore through bonds in two tranches. The first tranche of ₹5,000

crore, including ₹4,500 crore green-shoe option, opened for subscription on Friday (January 15) and was scheduled to close on January 29. But the issue had to be closed on Monday, the second day of trading, due to over-subscription on the BSE.

According to the BSE data, subscribers applied for 4,47,76,348 bonds or NCDs of ₹1,000 each against 50 lakh bonds on the offer (with 4.5 crore NCDs under green-shoe option) on the offer.

Thus, the PFC received subscription worth ₹4,477.63 crore, against ₹500 crore base issue size on offer (with greenshoe option of $\mathbb{Z}4,500$ crore). The overwhelming response to the bond issue may encourage the firm to come out with the second bond issue of ₹5,000 crore during the current finan-


RBI forex intervention to touch \$93 billion by March: Report

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, January 18

THE RESERVE BANK of India (RBI) is likely to spend at least \$20 billion more to support the rupee and increase the forex kitty through the reminder of the financial year, taking its overall forex intervention to \$93 billion, according to a report. The report by the Wall

Street brokerage, Bank of America Securities, also expects the central bank to raise banks' HTM (held-tomaturity) limits of excess government securities by 2% of their books to fund the fiscal deficit if high forex intervention limits its open market operations (OMOs).

So far this fiscal, the central bank's forex intervention has touched \$73.7 billion, according to the assessment by Bank of America Securities India economists Indranil



Governor Shaktikanta Das

Sen Gupta and Aastha Gud-

They also feel the RBI to intervene with \$45 billion in 2021-22 if the current account deficit (CAD) remains 0.5% of the gross domestic product (GDP). After eight years, the RBI

under current governor Shaktikanta Das has been building up the foreign exchange (forex) reserves, which as of January 15 stood at \$586.1 billion, a lifetime high.

While delivering the Nani Palkhivala lecture on Saturday, Das repeated his resolve to not let the 2008 or 2013 run on the rupee to be repeated again. "Our BoP (balance of payment) forecasts place RBI forex intervention at \$93 billion (\$73.7 billion so far) in 2020-21 and \$45 billion in 2021-22 if the the CAD remains at 0.5% of GDP, which is dependent on the crude oil averaging at \$50 a barrel," the report said.

It, however, added that since high forex intervention is limiting OMOs, the RBI is expected to raise banks' HTM limits by 2% of their books to fund the fiscal deficit.

On Saturday, Das had said, "To mitigate global spillovers EMs (emerging markets) like India have no recourse but to build their own forex reserve buffers, even though at the cost of being included in the currency manipulators list."

Bajaj Allianz Life strengthens agency channel

FE BUREAU

Pune, January 18

BAJAJ ALLIANZ LIFE Insurance recruited 15,000 agents between August and December 2020 across 500 locations in the country. Recruitment of the agency force picked up after a gap of five months because of the challenges of on-boarding agents during the lockdown, Sameer Joshi, chief agency officer, Bajaj Allianz Life, said.

The company's agency channel has become one of the the fastest-growing channels

Particulars

Revenue from operations

Paid-up equity share capital

Total comprehensive income, net of tax

Basic and diluted earnings per share (₹)

(not annualised) (Face value of ₹ 10 each)

Other equity (as shown in the Balance Sheet of

Profit before tax

Profit after tax

previous year)

respectively.

18 January 2021

AICICI

PRUDENTIAL

MUTUAL FUND

Pune

The company reported a 36% growth in the number of policies, which was the highest in the industry for the

nine-month period ended December

with a 23% year-on-year growth in December. The company added over 3,000 agents in the month alone.

Bajaj Allianz has 1,07,979 insurance agents pan India with average ticket size at

Maharashtra Scooters Limited

CIN: L35912MH1975PLC018376

Regd. Office: C/o.Bajaj Auto Ltd., Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune-411035.

Website: www.mahascooters.com; E-mail: investors_msl@bajajauto.co.in; Phone: 020-66107150

Note: The above is an extract of the unaudited financial results for the guarter and nine months ended

31 December 2020 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors

at its meeting held on 18 January 2021 and filed with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the

aforesaid financial results is available on the website of the Company, BSE Limited and National Stock

Exchange of India Limited i.e. www.mahascooters.com, www.bseindia.com and www.nseindia.com

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001.

Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051.

Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, Email id: enquiry@icicipruamc.com

Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express

Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice-cum-addendum to Scheme Information Document (SID) and Key Information

Memorandum (KIM) of ICICI Prudential Equity & Debt Fund (the Scheme) and

Investors are requested to take note of the below information pertaining to ICICI

Prudential Equity & Debt Fund updated under relevant portions of the SID, KIM and SAI:

"Neither the SID and SAI, nor the Units have been registered in any jurisdiction. The

distribution of this SID in certain jurisdictions may be restricted or subject to registration

requirements and, accordingly, persons who come into possession of this SID and the

SAI in such jurisdictions are required to inform themselves about, and to observe,

any such restrictions. No person receiving a copy of this SID or any accompanying

application form in such jurisdiction may treat this SID or such application form as constituting an invitation to them to subscribe for Units, nor should they in any event

use any such application form, unless in the relevant jurisdiction such an invitation

could lawfully be made to them and such application form could lawfully be used

All the other provisions of the SID/KIM/SAI of the Scheme except as specifically

This notice-cum-addendum forms an integral part of the SID/KIM/SAI of the Scheme,

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id

and mobile number to support paper-less communications.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness

Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com

or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com

Mutual Fund investments are subject to market risks,

read all scheme related documents carefully.

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Authorised Signatory

without compliance of any registration or other legal requirements."

mentioned herein above remain unchanged.

as amended from time to time.

Place: Mumbai

Date : January 18, 2021

No. 008/01/2021

Statement of Additional Information (SAI) of the Fund

Quarter

31.12.2020

(Reviewed)

ended

428

236

264

497543

1143

2.31

ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Nine-months

31.12.2020

(Reviewed)

ended

775

620

600

1143

5.25

By order of the Board of Directors

For Maharashtra Scooters Limited

782224

Extract of unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2020

₹63,165. The company's over one lakh agents, including point of sale persons, had written 99,940 policies and garnered ₹3,333 crore gross written premium for FY21 till December.

During the pandemic, it became difficult to meet customers in person, so the company had to make interventions through digital tools for ensuring agency connect with customers, Joshi said.

"These initiatives helped the company become the fastest-growing life insurer in December with a 41% growth

(₹ in Lakh)

31.12.2019

(Reviewed)

Quarter

ended

473

243

221

69805

819935

1143

1.93

Sanjiv Bajaj

Chairman

Regd. Office: Vikas Apartments, 34/1, East Puniabi Bagh, New Delhi-110026, Ph.: 011-43144444 | E-mail: cs@vikasecotech.com | URL: www.vikasecotech.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the meeting of the Board of

t the Registered Office of the Company at 34/1, Vikas Apartments, East Punjabi Bagh, Delhi 10026, inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of he Company for the Third Quarter ended December 31, 2020. he information contained in this Notice is also available on the website of the Company i.e www.vikasecotech.com and also on the website of the Stock Exchanges where shares of the

Company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com urther in terms of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, Trading Window for dealing in the Securities of the Company would continue to remain closed till 48 hours after the announcement of financial results.

Place: New Delhi Date: January 18, 2021

Vikas Garg Managing Director DIN: 00255413

CIN: L67120MH1997PLC112443

NOTICE Notice is hereby given, pursuant to regulation 29 read with regulation 47 of the

SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, that 163"meeting of the Board of Directors of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") will be held on 31" Day of January, 2021 through Audio-Visual means as per the notifications issued by Ministry of Corporate Affairs dated 19.03.2020 and 23.06.2020 inter alia, to consider, approve and take on record the Audited Standalone and Consolidated Financial results for the quarter and nine months ended 31.12.2020 along with the Statutory Auditor's Report thereon.

www.cdslindia.com and Stock Exchange website at: www.nseindia.com For Central Depository Services (India) Ltd.,

Amita Paunikar Place: Mumbai Vice President- Legal & Company Secretary, Compliance Officer Date: 18.01.2021



Regd. Office: Commerz, 3º Floor, International Business Park, Oberoi Garden City, Off Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400063 CIN: L45200MH1998PLC114818; E-mail Id: cs@oberoirealty.com Website: www.oberoirealty.com; Tel: +91 22 6677 3333; Fax: +91 22 6677 3334

Notice is hereby given that in terms of the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Oberoi Realty Limited will be held on Friday, January 22, 2021, to, inter alia, consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended

the website of BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

> For Oberoi Realty Limited Bhaskar Kshirsagar Company Secretary

Unison Private Limited

Choudhary Runveer Krishanan

TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED

Company Secretary 8

Compliance Head

Regd. Off.: 3rd Floor, Khata No. 458/660/641/3/1A, Harlur Main Road, Marathahalli sub zone, hadevpur Zone, Ward No. 150, Bangalore-560 2015-16 dated 9 July 2015 ("Circular") and as per Master Direction - Non-Banking Financial Company - Non-Systemically Important, Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016, DNBR.PD.007/03.10.119/2016-17, duly updated

as on February 17, 2020 ("Master Directions")]

Regd. Off.: 80 Raffles Place, #32-01 UOB Plaza, Singapore-048624 Public Notice

Notice be and is hereby given jointly by Hiveloop Capital Private Limited ('the Company') and Unison Private Limited (Existing Shareholder), pursuant to the orementioned Circular, clause 64 of chapter IX of Section III of above referred Master Direction and pursuant to the prior approval for change in shareholding granted by Reserve Bank of India (RBI) vide its letter no. DOS (BG) No.362/01.02.213 2020-21 dated January 06, 2021, that the shareholding of Unison Private Limited in

Hiveloop Capital Private Limited be increased from existing 21.19% to 35% of the The said proposed increase in shareholding of existing shareholder will not result into any change in control over the Company by Unison Private Limited. The increase in share capital of the Company is intended for the expansion of the business activities of

For Unison Private Limited For Hiveloop Capital Private Limited

Torrent PHRRMA

Place: Bangalore

Date: January 18, 2021

Registered office: Torrent House, Off Ashram Road, CIN: L24230GJ1972PLC002126 Ahmedabad - 380009, Gujarat, India Website: www.torrentpharma.com Phone: +91 79 26599000 Email Id: investorservices@torrentpharma.com Fax: +91 79 26582100

In terms of Regulation 29(1)(a) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations"), it is hereby notified that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 8th February, 2021, to consider, inter alia, the Audited Financial Results on Standalone basis and Unaudited Financial Results (with limited review) on Consolidated basis of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2020, as per Regulation 33 of the Listing Regulations.

February, 2021, as the record date for the purpose of determining Shareholders entitled for Interim Dividend for 2020-21, if declared by the The said notice is available on the Company's website at

www.torrentpharma.com and also on the Stock Exchanges' website at

www.bseindia.com and www.nseindia.com. For TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED

VP (LEGAL) & COMPANY SECRETARY,

within the Murugappa Group.

Arun Alagappan resigns as Chola MD

FE BUREAU Chennai, January 18

ARUNALAGAPPAN HAS ten-

dered his resignation as managing director of Cholamandalam Investment and Finance Company (Chola) as he wishes to move ahead to assume larger responsibilities

Alagappan will be relieved from the services of the Chola effective February 14, 2021, the company said in a stock exchange disclosure.

Alagappan, the then execu-

tive director Chola was elevated and appointed as the MD, in 2019 November for a period of five years.

Alagappan started his career with GE Capital Services India and after a twoyear stint there, joined the Murugappa Group in 1999.

CANARA ROBECO

Canara Robeco Mutual Fund Investment Manager: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Construction House, 4th Floor, 5, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001. Tel.: 6658 5000 Fax: 6658 5012/13 www.canararobeco.com CIN No.: U65990MH1993PLC071003

NOTICE-CUM-ADDENDUM NO.44

Precautionary measures taken against Coronavirus issue in respect of Canara Robeco Mutual Fund

Investors are requested to note that, the facility provided for transactions by email vide notice cum addendum

no. 02 dated 13th April, 2020 shall be discontinued with effect from 30th January, 2021.

The said facility was provided under the precautionary measures taken against Coronavirus issue in respect of Canara Robeco Mutual Fund.

Consequently, the designated email id i.e. "transact@canararobeco.com" will cease to be an Official Point

of Acceptance from the said date. All transactions (Financial and Non-Financial) will be accepted only in originals at your nearest branch of Canara Robeco AMC and KFin Technologies Private Limited (RTA)

All other terms and conditions contained in the Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of the schemes of Canara Robeco Mutual Fund will be applicable and remain unchanged. This addendum forms an integral part SID & KIM of the respective Schemes of Canara Robeco Mutual Fund

(as amended from time to time) Unit holders are requested to visit www.canararobeco.com in respect of their amounts remaining unclaimed or unpaid and follow the prescribed procedure therein.

For and on behalf of Canara Robeco Asset Management Company Ltd.

(Investment manager for Canara Robeco Mutual Fund)

Date: 18-01-2021

Place: Mumbai

Mumbai - 400 013

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Name, Designation & Age | Educational Qualification

ITI Asset Management Limited

Investment Manager for ITI Mutual Fund

Registered Office: Naman Midtown, 'A' Wing

21st Floor, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi

Toll Free No: 1800 266 9603 B: 022 6621 4999 • F: 022 6621 4998

ITI MUTUAL FUND Long-term wealth creators

Assignments held during last 10 years

Authorised Signatory

CIN: U67100MH2008PLC177677 NOTICE CUM ADDENDUM No. 02/2021

: mfassist@itiorg.com

W:www.itimf.com

NOTICE-CUM-ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT ('SID') / KEY INFORMATION MEMORANDUM ('KIM') AND STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI) OF ITI MUTUAL FUND

Appointment & Cessation of Key Personnel of ITI Asset Management Limited

Notice is hereby given that, Mr. Vikrant Mehta has been appointed as the Head - Fixed Income and Key Personnel of ITI Asset Management Limited ("ITIAML") with effect from January 15, 2021. His brief profile & work experience is given below:

Mr. Vikrant Mehta Head - Fixed Income Age: 49 years	M. S. (Engineering) CFA (ICFAI)	 Indiabulls Asset Management Co. Ltd (January 2019 - May 2020) - Head - Fixed Income and Portfolio Manager PineBridge India Private Limited (February 2015 - December 2018) - Asia Sovereign Analyst
		PineBridge Investments Asset Management Company (India) Private Limited (from December 2006 - February 2015) - Head - Fixed Income and Portfolio Manager

Further, Mr. Milan Mody, the Fund Manager - Fixed Income and a Key Personnel of ITIAML has submitted his resignation from his services. Accordingly, Mr. Milan Mody ceases to be the Key Personnel of ITIAML with immediate effect.

ii. Change in Fund Manager for certain scheme(s) of ITI Mutual Fund:

Investors may hereby note the change in the fund manager for the following schemes of ITI Mutual Fund with immediate effect:

Existing Fund Manager(s)	New Fund Manager(s)	
Mr. George Heber Joseph	Mr. George Heber Joseph	
Mr. Milan Mody	Mr. Vikrant Mehta	
Mr. George Heber Joseph	Mr. George Heber Joseph	
Mr. Milan Mody	Mr. Vikrant Mehta	
Mr. George Heber Joseph	Mr. George Heber Joseph	
Mr. Milan Mody	Mr. Vikrant Mehta	
Mr. George Heber Joseph	Mr. George Heber Joseph	
Mr. Milan Mody	Mr. Vikrant Mehta	
	Mr. George Heber Joseph Mr. Milan Mody Mr. George Heber Joseph	

It may be noted that necessary/incidental changes, if any, shall be made in the SID and KIM of the aforementioned Schemes in the above regard.

This Notice cum Addendum shall form an integral part of the SID, KIM & SAI of the schemes of ITI Mutual Fund, as amended from time to time. All other terms and conditions as mentioned in the SAI, SID & KIM shall remain unchanged.

(Investment Manager for ITI Mutual Fund)

George Heber Joseph

Chief Executive Officer & Chief Investment Officer

financialexp.epap.in

for further hearing on January

ing was conducted. It also sought suggestions from Sebi and Franklin Templeton trustees on how to proceed further on disbursement of funds if objections to voting results are rejected in the next hearing. While posting the matter

25 to decide on the procedure for disbursement of funds to the unitholders, the apex court clarified that it would not stop disbursal of refunds forwant of audit report.

their objections to how the vot-

tain the objections raised by few investors, saying one or two people can't stall the process. "Lakhs of people want to withensure unitholders get their money and good value. This difficulty will be there, some people will object, some will be in

in retail new business, compared with the same month in

2019. The company reported a 36% growth in the number of policies, which was the highest in the industry for the ninemonth period ended December 31, 2020," Joshi said.

VIKAS ECOTECH LIMITED

Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, January 23, 2021 at 11:30 A.M.

For Vikas Ecotech Limited

CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LIMITED

Regd Office: Marathon Futurex, 25th Floor, A-Wing, Mafatlal Mills Compound, N.M Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai 400013. Tel: 91-22-23023333 Website: www.cdslindia.com

The notice is also available on the website of the company

OBEROI REALTY OBEROI REALTY LIMITED

December 31, 2020. This notice is also available on the Company's website at www.oberoirealty.com and on

Place: Mumbai Date: January 16, 2021

liveloop Capital Private Limited As per Reserve Bank of India Circular No. DNBR (PD) CC. No. 065/ 03.10.001

This Public Notice is jointly issued by Unison Private Limited and Hiveloop Capital Private Sujeet Kumar Director

Place: Ahmedabad

Date: 18th January, 2021

NOTICE

Further, we would like to inform that the Company has fixed Tuesday, 16th Board of Directors at their aforesaid meeting.

MAHESH AGRAWAL

Place: Mumbai

Date: 18.01.2021

New Delhi

For ITI Asset Management Limited

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियार ले जाते दो आतंकी गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 18 जनवरी।

उपराष्ट्रपति ने

'भंडाफोड़' की व्यवस्था

को प्रोत्साहित करने का

सुझाव दिया

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्

ने सोमवार को सभी कॉरपोरेट

को सुझाव दिया कि भंडाफोड

करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित

करें और भंडाफोड करने वाले

लोगों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया

कॉरपोरेट को सुझाव देना चाहुंगा

कि भंडाफोड करने की व्यवस्था

को प्रोत्साहित करें और भंडाफोड

करने वाले लोगों को पर्याप्त

COURT NOTICE

In The Court Of Bhupinder

Rai Pal Singh Vs. Harmesh Lal

Publication Issued To: Harmesh Lal

Father: Kishan Dass VPO Chuheki

In above titled case, the accused could

Tehsil Phillaur District Jalandhar

not be served, it is ordered that

accused should appear in person or

a.m. for details logon to

notice&district=Jalandhar

through counsel on 15-02-2021 at 10.00

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district

रोड, कुण्डली जिला सोनीपत, हरियाणा-131028

Tel.: + 9188148-05077,

Email: cs@jaganlamps.com

Web: www.jaganlamps.com

CIN: L31501HR1993PLC033993

शेयर प्रमाणपत्रों के गुम होने की सुचना

कम्पनी के निम्न शेयर प्रमाणपत्रों के गुम होने/ स्थानच्युत

होने की सुचना मिली है तथा उक्त शेयर प्रमाणपत्र के

धारकों ने इप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये

एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि यदि इस सुचना के

प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर कम्पनी/आरटीए

को कोई वैध आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी निम्न

व्यक्तियों को डप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने की

प्रक्रिया शुरू करेगी। इप्लिकेट शेयर प्रमाण जारी कर देने

के बाद मूल शेयर प्रमाणपत्रों के संदर्भ में कम्पनी द्वारा

यदि किसी व्यक्ति को उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के संदर्भ मे

किसी प्रकार का कोई दावा हो, वे सभी समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने दावे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के

पास दाखिल करें। यदि इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिनों

के भीतर कम्पनी को कोई दावे प्राप्त नहीं होती है तो

कम्पनी ऊपर सूचीबद्ध व्यक्तियों को डुप्लिकेट शेयर

प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा किसी भी व्यक्ति के किसी भी

दावे पर विचार नहीं होगा।

स्थानः कुण्डली (सोनीपत)

तिथि: 17.1.2021

कम्पनी/ आरटीए के पास आवेदन किया है।

किसी भी दावे पर विचार नहीं की जायेगी।

जगन लैम्प्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः नरेला पिआओ मनिहारी

JMIC- 5, Jalandhar

NEXT DATE: 15-02-2021

CNR NO: PBJL03-031466-2018

Mittal JMIC-5, Jalandhar

सुरक्षा मुहैया कराएं।'

उन्होंने कहा, 'मैं सभी

हैदराबाद, 18 जनवरी (भाषा)।

जैश ए मोहम्मद के दो आतंकवादियों को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार तथा गोलाबारूद बरामद किया गया. जिसे सीमापार स्थित उनके आकाओं ने डोन के माध्यम से गिराया था। जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंह ने कहा कि आतंकवादी, कश्मीर से सांबा स्थित

(APLAPOLLO

स्थानः दिल्ली

तिथि: 18.01.2021

तिथि: 18.1.2021, नई दिल्ली

विजयपुर पर अंतरराष्ट्रीय सीमा तक गए थे और वहां उन्होंने ड्रोन से गिराए गए हथियार और गोलाबारूद एकत्र किए थे। हथियार लेकर कश्मीर की ओर बढ़ रहे आतंकवादियों को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन जिला पुलिस और जम्मू एसओजी के संयुक्त अभियान के दौरान पकड़ लिया गया। आतंकवादियों की पहचान उमर अहमद मलिक और सुहैल अहमद मलिक के रूप में की गई है, जो कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के सेमथन गांव के निवासी हैं। सिंह ने बताया

एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 37, हरगोबिन्द एन्कलेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092

कॉर्पोरेट कार्यालय : 36. कौशाम्बी, आनन्द विहार टर्मिनल के निकट, वेव सिनेमा के पीछे, गाजियाबाद-201010

Phone No. +91-121-4041400, Fax No.: +91-120-4041444 CIN: L74899DL1986PLC023443

वेबसाइट : www.aplapollo.com, ईमेल: investors@aplapollo.com

सेबी (सचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47(1)(ए) के अनुपालन में सूचित

किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार. 25 जनवरी, 2021 को आयोजित की जायेगी जिसमें

31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तीसरी तिमाही एवं नौमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामीं

जन का-आपरीटव बेक लि., एच ओ: 80, दरियागंज, नई दिल्ली-110002, फोन: 011-28832213, 9313784974, ईमेल: jainBank@rediffmail.com वेब का पता: www.jainBank.com

फाइनांसियल एक्स्प्रेस (अंग्रेजी) तथा जनसत्ता (हिंदी) में 16.01.2021 को जैन को-ऑपरेटिव बैंक,

एच.ओ.: 80, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता का ध्यान

आकृष्ट किया जाता है। कृपया विनोद कुमार की खाता में क्रम सं. 2 में सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार पढें:

एक दुकान, माप (8.5'x10') अर्थात् 9.44 वर्ग यार्ड्स, भू तल पर दो तरफ से खुला, सम्पत्ति सं.

IX/5417, मैन रघुवरपुरा नं. 2, खसरा नं. 291 में, ग्राम ओल्ड सीलमपुर, शाहदरा, दिल्ली-110003

(स्टैंडएलॉन एवं समेकित) पर अन्य विषयों के अलावे अनुमोदन किये जाएंगे।

गोलियां. दो मैगजीन समेत पिस्तौल और 16 हथगोले शामिल हैं। विकास ईकोटेक लिमिटेड CIN: L65999DL1984PLC019465

विकास अपार्टमेंट्स, 34/1, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 फोन: 011-43144444/ ई-मेल: cs@vikasecotech.com, URL: www.vikasecotech.com सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन

कि बरामद किए गए हथियारों में दो एके राइफलें, नौ मैगजीन, 269

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार. 23 जनवरी. 2021 को 11.30 बजे पर्वा. में 34/1 विकास अपार्टमेन्ट्स, ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली-110026 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयो के साथ 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनमोदन कर उसे इस सूचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.vikasecotech.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाईटों अर्थात् www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

पुनः सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनिमयन, 2015 के अनुसार कम्पनी की प्रतिभृतियों में कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48 घंटे तक बंद रहेंगे। विकास ईकोटेक लिमिटेड के लिये

> विकास गर्ग प्रबंध निदेशक

> > DIN:00255413

RELAXO

स्थानः नई दिल्ली

स्थानः दिल्ली

तिथि: 18.01.2021

तिथि: 18 जनवरी. 2021

RELAXO FOOTWEARS LIMITED Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No.-10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 CIN:- L74899DL1984PLC019097, Ph; 011-46800600, Fax: 011-46800692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं आवश्यक उदघोषणा) विनियम, 2015 वं लागु विनियमन (ओ) के अनुसार प्रावधानों के अनुपालन में रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार 30 जनवरी, 2021 की दोपहर 12:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अग्रवाल सिटी स्क्वॉयर, प्लॉट नं, 10. मंगलम प्लेस, डिस्टिक्ट सेंटर, सेक्टर—3. रोहिणी, दिल्ली — 110085 में होगी जिसमें अन्य कार्यों के अलावा 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौमाही के अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, समीक्षा, अनुमोदन और उन्हें रिकॉर्ड करने का काम किया जाएगा। इस नोटिस में निहित जानकारी हमारी वेबसाइट www.relaxofootwear.com के साध-साध स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

> निदेशक मंडल के आदेशानुसा कृते रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड विकास कुमार टाक कम्पनी सचिव

एपीएल अपोलो ट्यब्स लिमिटेड के लिख

(दीपक सीएस

कम्पनी सचिव

Indiabulls Real Estate Limited

जी.एम/ प्राधिकत अधिकारी, जैन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended 31 December 2020

SI.	Particulars	3 months ended 31 December 2020	Year to date figures for current year period ended 31 December 2020	3 months ended 31 December 2019
No.				
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	75,681.23	90,255.18	1,31,770.46
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate, Exceptional and/or Extraordinary items)	10,767.87	(6,112.05)	11,641.52
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10,767.87	(6,112.05)	11,641.52
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax, Minority Interest and Share of Profit / (Loss) of Associate (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,058.96	(9,011.36)	4,920.45
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,361.40	(9,089.20)	17,429.73
6	Equity Share Capital	9,093.28	9,093.28	9,093.28
7	Earnings per Share (EPS) before extraordinary items *(EPS for the quarters are not annualised) - Basic (Amount in ₹) - Diluted (Amount in ₹) Earnings per Share (EPS) after extraordinary items *(EPS for the quarters are not annualised)	1.77 1.77	(1.98) (1.98)	1.08 1.08
	*(EPS for the quarters are not annualised)	1.77	(1.98)	1.08
	- Basic (Amount in ₹) - Diluted (Amount in ₹)	1.77	(1.98)	1.08

3 months Year to date figures 3 months for current year ended **Particulars** period ended 31 December 2020 31 December 2020 31 December 2019 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited)

403,90 3,193.65 21,368.67 Total Income (Loss) / Profit before Tax (3,087.98)(13,559.90)(3.004.50)Net (Loss) / Profit after Tax (3,098.65)(13,586.79)(3.030.13)3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Company's website (https://indiabullsrealestate.com) and on the website of BSE (https://www.bseindia.com) and NSE (https://www.nseindia.com).

Registered Office: M-62&63, First Floor, Connaught Place, New Delhi- 110 001. (CIN: L45101DL2006PLC148314)

For and on behalf of the Board of Directors

Mehul Johnson Joint Managing Director

HAVELLS

जगन लैम्प्स लिमिटेड के लिये

हस्ता./

संदीप यादव

कम्पनी सचिव

हैवेल्स इंडिया लिमिटेड

2. Key Standalone Financial Information:

रजि. ऑफिसः 904, 9वीं मंजिल, सूर्या किरन बिल्डिंग, के.जी. मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001 कॉर्पोरेट ऑफिसः क्युआरजी टॉवर्स, 2डी, सेक्टर-126, एक्सप्रेसवे, नोएडा-201 304 (उ.प्र.), फोन: +91-120-3331000, फैक्स: +91-120-3332000, वेबः www.havells.com, ई-मेलः investors@havells.com, CIN-L31900DL1983PLC016304

वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतरिम) के अचुकता लामांश और ऐसे शेयरों, जिन पर वि.वर्ष 2013-14 (अंतरिम) के बाद लगातार 7 सालों से लाभांश अचुकता है/ लाभांश का दावा नहीं किया गया है को आईईपीएफ (निवेशक शिक्षा एवं

Place: Gurugram

Date: 18 January 2021

संरक्षण कोष) में हस्तांतरण किये जाने के संदर्भ में

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और आईईपीएफ (अकाउंटिंग ऑडिट ट्रांसफर एंड रिफन्ड) रूलस, 2016 ('दि रूलस)' के प्रावधानों, जिनमें समय-समय पर संशोधन हुआ है, के अनुसरण में हर कंपनी को ऐसे अचुकता लाभांश या दावा न किये गये लाभांश की राशि को आईईपीएफ में अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करना होता है, जो ऐसे खातों में हस्तांतरित होने के 7 (सात) वर्ष की अवधि तक अचुकता या बिना दावे के रहती है। इस नोटिस के माध्यम से, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि वितीय वर्ष 2013-14 (अंतरिम) के कंपनी के अचुकता लाभांश/बिना दावे

के लागांश खाते में पड़ी अचुकता लागांश / बिना दावे के लागांश की राशि को आईईपीएफ में हस्तांतरित करने की नियत तारीख 20 अप्रैल. 2021 तेजी से पास आ रही है। तदनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे कृप्या ध्यान दें और अधुकता लाभांश का दावा करें। इस संबंध में कंपनी द्वारा पहले से ही उपलब्ध शेयरधारकों को पत्र और ईमेल भेजने के माध्यम से पुनः संघार किया गया है। इस नोटिस के माध्यम से, हम खासकर ऐसे शेयरधारकों का भी ध्यान आकर्षित करते हैं. जिनका वित्तीय वर्ष 2013-14 (अंतरिम) के बाद

से यानि पिछले 7 (सात) वर्षों से अचुकता है/बिना दावे का है। कृप्या ध्यान दें कि ऐसे शेरयरधारकों के अंतर्निहित शेयर भी आईईपीएफ में हस्तांतरित कर दिये जाएंगे। एक बार ये शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरित होने के बाद शेयरधारक अपने सभी मतदान अधिकारों से वचित हो जायेंगे और इन शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभ, जैसे डिविडेंड, बोनस शेयर, स्प्लिट, कंसोंलिडेशन आदि खो देंगे, क्योंकि शेयरों के साथ ही ये भी आईईपीएफ को ट्रांसफर कर दिये जाएंगे। वित्त वर्ष 2013-14 (अंतरिम) की शुरुआत से ऐसे शेयरधारकों की पूरी सूची, जिनके लागांश अचुकता हैं, उनके फोलियो / डीपी-आईडी

ग्राहक आईडी सहित कंपनी के अधुकता लाभांश खाते में दी गई है। जिनके शेयर आईईपीएफ के हस्तांतरित किये जाने हैं, उनकी सूची कंपनी की वेबसाइट https://havells.com/en/discover-havells/investor-relation/unclaimed-dividend.html में निवेशक सम्बन्धी खंड के अचुकता लामांश खंड में दी गई है।

आपके हित में, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने शेयरों को आईईपीएफ में हस्तांतरित होने से बचाने के लिए हस्तांतरण की नियत तारीख से पहले अपने लाभांश का दावा करें।

अपने लामांश का दावा करने के लिए आप कंपनी के मास्टर डेटा में अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट करवायें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी लाभांश सीघे आपके बैंक खाते में जमा हों। आप हमें सादे कागज में निर्धारित प्रारूप में अपने हस्ताक्षर सहित अपने विवरण भेजें (प्रारूप कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है) और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगायें

यदि मूल कँसल किये गये चेक पर शेयरधारक का नाम छपा है:--1. बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम, खाते का प्रकार, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड और शेयरधारक का नाम वाला असली

2. पैन कार्ड की सेल्फ अटस्टेड कॉपी 3. पते के प्रमाण के रूप में आधार / पासपोर्ट / यूटिलिटी बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं) की सेल्फ अटेस्टेंड साफ कॉपी

- यदि मूल कँसल किये गये चेक पर शेयरधारक का नाम नहीं छपा है:--
- 1. बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम, खाते का प्रकार, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड वाला असली कैंसल किया गया चेक 2. बैंक की पासबुक / बैंक खाते स्टेटमेंट की साफ कॉपी, जिसमें पंजीकृत शेयरधारक का पूरा केंदाईसी विवरण (नाम, पता, बैंक खाता नं आदि) छपा हो, जो बैंक के अधिकारी द्वारा, उसके नाम कर्मचारी कोड, पदनाम, बैंक मुहर और पते की मुहर, फोन नं. और

सत्यापन की तारीख सहित हस्ताक्षरित हो 3. पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी

4. पते के प्रमाण के रूप में आचार/पासपोर्ट/यूटिलिटी बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं) की सेल्फ अटेस्टेंड साफ कॉपी

कृप्या अपने अनुरोध कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, क्यूआरजी टॉवर्स, 2डी, सेक्टर 126, एक्सप्रेसवे, नोएडा—201304 (च. प्र.), फोनः 0121–3331000, फैक्सः 0120–3332000, ई–मेलः investors@havells.com, वेबसाइटः www.havells.com पर

यदि आपको इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता की आवश्यकता है, तो आप कभी भी कंपनी के उपरोक्त कॉर्पोरेट

कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

कृते हैवेल्स इंडिया लिमिटेड नोएडा, 18 जनवरी, 2021


कंपनी सचिव

कार्यालय नगर निगम, कोटा (उत्तर/दक्षिण) राजस्थान राजीव गांधी प्रशासनिक भवन, सी.ए.डी. सर्किल, दशहरा मैदान, कोटा email: nnkota@gmail.com, websites: www.kotamc.org, Ph.: 0744-2500197 दिनांक:- 18/1/21 क्रमांकः- ननिको-उ./द्./निर्माण/2020/412-425 -:: संशोधित ई- निविदा सुचना ::-नगर निगम कोटा (उत्तर/दक्षिण) द्वारा ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 39/2020-21 क्रमांक 377-310 दिनांक 07.01.2021 को जारी की गयी थी। उक्त आमंत्रित ई-निविदा सूचना संख्या की तारीखों में अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। पूर्व में तिथि संशोधित तिथि निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट 09.01.2021 से 09.01.2021 से 19.01.2021 25.01.2021 09.01.2021 से िनिविदा अपलोड करने की तिथि 09.01.2021 से 19.01.2021 25.01.2021 20.01.2021 27.01.2021

करने की तिथि (सांय 03:00 बजे तक) (सांय 03:00 बजे तक) निविदा/तकनीकी बिड खोलने की तिथि 28.01.2021 21.01.2021 (दोपहर 02:00 बजे) (दोपहर 02:00 बजे) तकनिकी बिड परिक्षण तकनिकी बिड परिक्षण के पश्चात के पश्चात शेष शर्तें यथावत रहेंगी। हस्ता.

> अधिशाषी अभियन्ता (खण्ड-द्वितीय नगर निगम कोटा-दक्षिण

(₹in Lakhs)



सुरक्षा एसेट रीकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (पूर्व में सुरक्षा एसेट रीकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड विदित (CIN:U74120MH2015PTC268857) पंजी. कार्यालय: 20 वां तल, 'ए' विंग, नमण मिडटाउन, सेनापित बापत मार्ग, एलिफिन्स्टन रोड, मुम्बई-400013, महाराष्ट्र, भारत टेली.: 022 40273679, फैक्स: + 91 22 40273700,

ईमेलः admin@surakshaarc.com वेबः www.surakshaarc.com कब्जा सूचना [नियम 8 (1) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सुरक्षा एसेट रीकन्स्ट्रक्शन लि. (''एसएआरएल'') (पूर्व में सुरक्षा एसेट रीकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड विदित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी नें मांग सूचना तिथि 30.04.2019 जारी कर 1) नवल सक्सेना (ऋणधारक), 2) अनंत सक्सेना (सह-ऋणधारक) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,99,33,637.92/- (रुपये एक करोड़ निन्यानवे लाख तैंतीस हजार छः सौ सैंतीस एवं पैसे बानवे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक मांग सूचना में वर्णित इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, तथा मूल लेण्डर ने ऋणधारकों से संबंधित वित्तीय परिसम्पत्तियों को सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा एसेट रीकन्स्ट्रक्शन लि., सुरक्षा एआरसी-020 के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत, को सौंप दिया है, अतः एतदद्वारा ऋणधारकों तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि नाईब तहसीलदार (ड्यूटी मजिस्ट्रेट) वजीराबाद ने आज, 13 जनवरी, 2021 को प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत माननीय डीएम, गुरुग्राम में निहित शक्तियों के अनुसार मामला सं. 54/एसए/डीएम में आदेश तिथि 17.12.2019 के अनुपालन में एसएआरएल के प्राधिकृत अधिकारी को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा सौंप दिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,99,33,637.92/- (रुपये एक करोड़ निन्यानवे लाख तैंतीस हजार छः सौ सैंतीस एवं पैसे बानवे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये सुरक्षा

एसेट रीकन्स्ट्रक्शन लि. (''एसएआरएल'') के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण 1. 1ला तल, हांग कांग बाजार, सेक्टर-57, सुशांत लोक-2, गुड़गांव पर व्यावसायिक दुकान नं. 6 का सभी

2. 1ला तल, हांग कांग बाजार, सेक्टर-57, सुशांत लोक-2, गुड़गांव पर व्यावसायिक दुकान नं. 7 का सभी

3. 1ला तल, हांग कांग बाजार, सेक्टर-57, सुशांत लोक-2, गुड़गांव पर व्यावसायिक दुकान नं. 8 का सभी भाग तथा हिस्सा।

तिथि: 13.01.2021 स्थानः गुड़गांव (सुरक्षा एआरसी-020 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत)

Criminal Courts, Ludhiana In The Court Of Sh. Ramesh Kumar JMIC NEXT DATE: 19-02-2021 CNR NO: PBLD03-010798-2019

next date, purpose of case, orders and judgments as

well as other case information is available on

http://districts.ecourts.gov.in./ludhiana Ektuhi Creator Vs Sagar M Parekh Publication Issued To: 1) Sagar M Parekh Address-S/o Mahendrabhai K Parekh 302 Vill Park App, Gopipura Subhash Chowk, Surat also at Sagar M Parekh 263 Laxmipark Block Laxmiwadi Main Road, Rajkot 360002 3rd Address D.s. Brothers And Co. 140 H-DR Vigas street, 7th Cavel Cross Lane, room no 10 2nd Floor Kalabadevi Road, Mumbai whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-02-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in case

COURT NOTICE In The Court Of Sh. Amrish Kumar Jain Judicial Magistrate-Ist Class Sangrur CNR NO: PBSG03-001837-2018 NEXT DATE: 23-02-2021

of default on your part to appear as directed

above the above said case will be heard and

determined as per law, in your absence. for

details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?

JMIC Ludhiana

trs=district_notice&district=Ludhiana

S P Industries Vs. Bir Bhan Notice To: Bir Bhan Father: Authorized Signatory Mangla Beverges Dayalpura Road Opposite Nishan public School Karnal In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 23-02-2021 at 10.00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice &district=Sangrur

COURT NOTICE In The Court Of Ms. Rajbinder Kaur Judicial Magistrate 1st Class, Bathinda CNR NO: PBBT03-002217-2019 NEXT DATE: 17-02-2021 Harpal Singh Vs Terbhuvan Kumar Publication Issued To: Terbhuvan Kumar Father: S/o Shri Daya Ram S/o Ram Naresh R/o C/o Subadha Major Kulwant singh R/o Guru Gobind Singh Nagar, Gali No. 17, H.no. MCB-Z-5- 00537, Bathinda In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 17-02-2021 at 10.00 a.m. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_noti ce&district=Bathinda JMIC Bathinda

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Sh Ramesh Kumar JMIC NEXT DATE: 19-02-2021 CNR NO: PBLD03-011566-2019 Next data, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in_/ludhiana Dinesh Narang M/s Rajani Sales Corporation Publication Issued To: Rajani Kumari Auth Signatory/prop./partner/director Of M/s Rajani Sales Corporation Main Road, Raxaul, East Champaran, Bihar 845305 whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally sefore this court on 19-02-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of his proclamation, take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?

trs=district notice&district=Ludhiana

JMIC Ludhiana

ORIENT BELL LIMITED

Read. Office: 8: Industrial Area, Sikandrabad - 203 205, (U.P.) Corp. Off: Iris House, 16 Business Center, Nangal Raya, New Delhi-110 046 CIN: L14101UP1977PLC021546, Tel.: +91-11-47119100 Email: investor@orientbell.com, Website: www.orientbell.com NOTICE

Notice is hereby given that, pursuant to Regulation 47(1) of Securities and Exchange

Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 28th day of January, 2021 at New Delhi, to interalia, consider and approve the Un-Audited (Standalone & Consolidated) Financial Results for the Quarter and Nine months Further, the details of this notice are available on Website of the Company at

www.orientbell.com and also on the Websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India (www.nseindia.com). For Orient Bell Limited

Place: New Delhi Date: 18.01.2021



Yogesh Mendiratta Company Secretary

Dr Lal Path Labs

Dr. Lal PathLabs Limited

Corporate Identification Number: L74899DL1995PLC065388 Registered Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi-110085 Corporate Office: 12th Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector-38, Gurugram-122001, Haryana Tel.: +91-124-3016500: Fax: +91-124-4234468

Website: www.lalpathlabs.com; Email: cs@lalpathlabs.com Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, January 29, 2021 to inter-alia, consider and approve the Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the Quarter & Nine Months ended on December 31, 2020 and to consider the proposal of declaration of 2nd Interim Dividend, if any, for the Financial Year 2020 -21.

This intimation is also available on the Company's website at www.lalpathlabs.com and on the website of the Stock Exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For Dr. Lal PathLabs Limited

Date: January 18, 2021 Place: Gurugram

Rajat Kalra Company Secretary and Legal Head

सुरक्षा एसेट रीकन्स्टक्शन लिमिटेड (पर्व में सरक्षा एसेट रीकन्स्टक्शन प्राईवेट लिमिटेड विदित) (CIN:U74120MH2015PTC268857) पंजी. कार्यालय: 20 वां तल, 'ए' विंग, नमण मिडटाउन, सेनापति बापत मार्ग,

एलिफिन्स्टन रोड, मुम्बई-400013, महाराष्ट्र, भारत टेली.: 022 40273679, फैक्सः + 91 22 40273700, ईमेलः admin@surakshaarc.com वेबः www.surakshaarc.com

कब्जा सूचना [नियम 8 (1) के अंतर्गत अचल सम्पत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 व अंतर्गत सरक्षा एसेट रीकन्स्टक्शन लि. (''एसएआरएल'') (पर्व में सरक्षा एसेट रीकन्स्टक्शन प्राईवेट लिमिटेड विदित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी नें मांग सूचना तिथि 30.04.2019 जारी कर 1) अंनत सक्सेना (ऋणधारक), 2) नवल सक्सेना (सह-ऋणधारक) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 3,16,31,782.60/- (रुपये तीन करोड़ सोलह लाख इक्कतीस हजार सात सौ बयासी एवं पैसे साठ मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारकों से संबंधित वित्तीय परिसम्पत्तियों को सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा एसेट रीकन्स्ट्रक्शन लि., सुरक्ष एआरसी-020 के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत, को सौंप दिया है, अतः एतदद्वारा ऋणधारकों तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि नाईब तहसीलदार (ड्यूटी मजिस्ट्रेट) वजीराबाद ने आज, 13 जनवरी, 2021 को प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत माननीय डीएम, गरुग्राम में निहित शक्तियों के अनसार मामला सं. 55/एसए/डीएम में आदेश तिथि 17.12.2019 के अनपालन में एसएआरएल के प्राधिकत अधिकारी को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा सौंप दिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 3,16,31,782.60/- (रुपये तीन करोड़ सोलह लाख इक्कतीस हजार सात सौ बयासी एवं पैसे साठ मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये सरक्षा एसेट

ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक मांग सुचना में वर्णित इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, तथा मुल लेण्डर ने

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के पावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण ।. 1ला तल, हांग कांग बाजार, सेक्टर-57, सुशांत लोक-2, गुड़गांव पर व्यावसायिक दुकान नं. 13 का सभी भाग

2. 1ला तल, हांग कांग बाजार, सेक्टर-57, सुशांत लोक-2, गुड़गांव पर व्यावसायिक दुकान नं. 14 का सभी भाग 3. 1ला तल, हांग कांग बाजार, सेक्टर-57, सुशांत लोक-2, गुड़गांव पर व्यावसायिक दुकान नं. 15 का सभी भाग

तिथि: 13.01.2021 स्थानः गुडगांव

प्राधिकृत अधिकारी सुरक्षा एसेट रीकन्स्ट्रक्शन लि (सुरक्षा एआरसी-020 टस्ट के टस्टी की हैसियत में कार्यरत

प्रपत्र–जी प्रस्ताव योजना का आमंत्रण

रीकन्स्टक्शन लि. (''एसएआरएल'') के चार्ज के अधीन होगा।

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 की विनियम 36ए के उप-विनियम (5) के अधीन)

प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के ध्यानार्थ (गुजरात हाईड्रोकार्बन्स एंड पावर सेज लिमिटेड)

विवरण कारपोरेट ऋणी का नाम गुजरात हाईड़ोकार्बन्स एंड पावर सेज लिमिटेड कारपोरेट ऋणी की संस्थापना की तिथि 17 अगस्त, 2007 प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी दर्ज/पंजीकृत है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़-दिल्ली कारपोरेट ऋणी का निगमित पहचान संख्या/सीमित U70109DL2007PLC167079 दायित्व पहचान संख्या कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान 22 कम्यनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली, कार्यालय (यदि कोई है) का पता दक्षिणी दिल्ली- दिल्ली 110057 भारत कारपोरेट ऋणी के संबंध में इंसॉलवेसी शुरुआती तिथि 18 नवंबर 2020 अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि 19 जनवरी, 2021 कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों विवरण rakesh202@hotmail.com पर इमेल भेजने द्वारा प्राप्त के लिए पात्रता उपलब्ध है। किया जा सकता है धारा 29ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध वेबसाइट IBBI(ibbi.gov.in) पर उपलब्ध या rakesh202@ hotmail.com पर इमेल भेजने द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि े 3 फरवरी, 2021 10. प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सुची जारी करने 13 फरवरी, 2021 अनंतिम सची पर आपत्तियों के प्रस्ततिकरण की अंतिम तिथि 18 फरवरी, 2021 12. प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने 28 फरवरी, 2021 प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजना के 13 फरवरी, 2021 लिए अनुरोध तथा सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन सारणी जारी करने की तिथि प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन तथा विवरण rakesh202@hotmail.com पर इमेल भेजने द्वारा आगामी जानकारी हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि प्राप्त किया जा सकता है प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2021 प्रस्ताव पेशेवर को प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने का क्रम संख्या 21 पर दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट या दस्ती तौर और 17. rakesh202@hotmail.com पर इमेल भेजने द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप में। अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्ताव 15 अप्रैल, 2021 योजना की प्रस्तुति हेतु अनुमानित तिथि प्रस्ताव पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण सं. राकेश कुमार अग्रवाल IBBI/IPA-001/IP-P00443/2017-2018/11786

प्राधिकृत अधिकारी सुरक्षा एसेट रीकन्स्ट्रक्शन लि.

कृते गुजरात हाईड्रोकार्बन्स एंड पावर सेज लिमिटेड दिनांकः 19 जनवरी, 2021 स्थानः कोलकाता

प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली 20 एन.एस. रोड, ब्लाक-ए, प्रथम तल,

20 एन.एस. रोड, ब्लाक-ए, प्रथम तल,

कमरा नं. 15, कोलकता-700001

rakesh202@hotmail.com

कमरा नं. 15, कोलकता-700001

rakesh202@hotmail.com

किया जा सकता है

19 जनवरी, 2021

विवरण rakesh202@hotmail.com पर इमेल द्वारा प्राप्त

प्रस्ताव पेशेवर

प्रस्ताव पेशेवर का नाम, पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड राकेश कुमार अग्रवाल

के साथ पंजीकृत है।

इमेल तथा पता

आगामी विवरण पर या के साथ उपलब्ध है

फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि

www.readwhere.com